

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023—ज्येष्ठ 19, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

फा. क्र. 2710—इक्कीस—ब—(एक)—2023.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम-3 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) सेवा प्रवर्ग तथा वेतनमान निम्नानुसार होंगे :

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) I-स्टेज ए सी पी	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) II-स्टेज ए सी पी /सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) स्टेज ए सी पी	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) II-स्टेज ए सी पी /जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विद्यमान वेतनमान	27700-44700	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070
विद्यमान प्रवेश वेतन	27700	33090	39530	43690	51550
स्तर	जे-1	जे-2	जे-3	जे-4	जे-5
वर्ष 1	77840	92960	111000	122700	144840
वर्ष 2	80180	95750	114330	126380	149190
वर्ष 3	82590	98620	117760	130170	153670
वर्ष 4	85070	101580	121290	134080	158280
वर्ष 5	87620	104630	124930	138100	163030
वर्ष 6	90250	107770	128680	142240	167920
वर्ष 7	92960	111000	132540	146510	172960
वर्ष 8	95750	114330	136520	150910	178150
वर्ष 9	98620	117760	140620	155440	183490
वर्ष 10	101580	121290	144840	160100	188990
वर्ष 11	104630	124930	149190	164900	194660
वर्ष 12	107770	128680	153670	169850	
वर्ष 13	111000	132540	158280	174950	
वर्ष 14	114330	136520	163030	180200	
वर्ष 15	117760				
वर्ष 16	121290				
वर्ष 17	124930				
वर्ष 18	128680				
वर्ष 19	132540				
वर्ष 20	136520				

2. नियम 14 में,-

(1) उप नियम (1) में, अंक 2003 के पश्चात् शब्द तथा अंक "मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022" अंतःस्थापित किये जाएं.

(2) उपनियम (2) का लोप किया जाए.

F.No. 2710-XXI-B-(One)-2023.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Service Categories and Pay scales shall be as under :

TABLE

Serial No.	Civil Judge (Jr. Div) Entry Level	Civil Judge (Jr. Div) 1 Stage ACP	Civil Judge (Jr. Div) II Stage ACP/Civil Judge (Sr. Div) Entry Level	Civil Judge (Sr. Div) Stage ACP	Civil Judge (Sr. Div) II Stage ACP (/District Judge Entry Level)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Existing Pay Scale	27700-44700	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070
Existing Entry Pay	27700	33090	39530	43690	51550
Level	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5
Year 1	77840	92960	111000	122700	144840
Year 2	80180	95750	114330	126380	149190
Year 3	82590	98620	117760	130170	153670
Year 4	85070	101580	121290	134080	158280
Year 5	87620	104630	124930	138100	163030
Year 6	90250	107770	128680	142240	167920
Year 7	92960	111000	132540	146510	172960
Year 8	95750	114330	136520	150910	178150
Year 9	98620	117760	140620	155440	183490
Year 10	101580	121290	144840	160100	188990
Year 11	104630	124930	149190	164900	194660
Year 12	107770	128680	153670	169850	
Year 13	111000	132540	158280	174950	
Year 14	114330	136520	163030	180200	
Year 15	117760				
Year 16	121290				
Year 17	124930				
Year 18	128680				
Year 19	132540				
Year 20	136520				

2. In rule 14,—

(1) In sub-rule (1), after figure 2003, the words and figure "Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of pay, Pension and other Retirement Benefits) Rules, 2022" Shall be inserted.

(2) sub-rule (2) shall be deleted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

फा. क्रं. 2010/21-ब(एक) राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में राज्य प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.02.2020 के आईटम क्रमांक 3 में पारित संकल्प के अनुसार म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के साथ अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

SCHEDULE A

See Rules 10, 11(1), 13(1)(2), 15, 16 (1), 18 & 19 Proposed Amendment Scheduled MP STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY							
S.No.	Name of the Post	Pay scales	Posts as per schedule of the Rules 1996	Posts after bifurcation	Additional Posts sanctioned After bifurcation	Total No. of Posts	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Member Secretary	—	1	—	—	1	
2	Additional Secretary	—	1	—	—	1	M.P.Gazette. Part-1 Dated 17 July 2020 File No. 2659- Twenty one-B(two)
3	Deputy Secretary	—	2	—	—	2	
4	Secretary (DLSA)	—	—	—	51	51	Vide Order No. 1654 B(11) dated 09.06.2015
5	Under Secretary	15600-39100 Grade Pay	2	—	—	2	
6	Accounts Officer	15600-39100 Grade Pay	1	—	—	1	
7	District Legal Aid Officer	15600-39100 Grade Pay 5400	67	50	5	55	Vide Order No. 17(E)/343/2011/21-B(11)(1733) dated 20.08.2013
8	Audit Officer	9300-34800 Grade Pay 4200	1	1	—	1	
9	Private Secretary to Executive Chairman	9300-34800 Grade Pay 4200	1	1	—	1	
10	Senior Computer Programmer	9300-34800 Grade Pay 4200	1	1	—	1	
11	Suprintendent	9300-34800 Grade Pay 3600	1	1	—	1	
12	Personal Assistant	9300-34800 Grade Pay 3600	1	1	—	1	

13	Asst. Auditor	5200-20200 Grade Pay 2800	1	1	—	1	
14	Assistant Grade - I	5200-20200 Grade Pay 2800	1	1	—	1	
15	Accountant	5200-20200 Grade Pay 2400	4	3	—	3	
16	Assistant Protocol Officer	5200-20200 Grade Pay 2400	1	1	—	1	
17	Assistant Grade - 2	5200-20200 Grade Pay 2400	5	5	—	5	
18	Assistant Grade - 3	5200-20200 Grade Pay 1900	11	11	—	11	
19	Computer Operater	5200-20200 Grade Pay 1900	3	3	—	3	
20	Driver	5200-20200 Grade Pay 1900	3	2	2	4	1. Order No. 263/21- B (11) dated 24.01.2006 2. Order No. 17(E)/ 97/2014/21-B(11)(1996) dated 23.05.2014
21	Daftari	5200-20200 Grade Pay 1800	2	2	—	2	
22	Peon	4440-7440 Grade Pay 1300	16	16	—	16	
23	Farrash	4440-7440 Grade Pay 1300	3	3	—	3	
24	Waterman	4440-7440 Grade Pay 1300	3	3	—	3	
25	Watchman	4440-7440 Grade Pay 1300	3	3	—	3	
26	Sweeper	4440-7440 Grade Pay 1300	3	3	—	3	

SCHEDULE B**HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE**

S.No.	Name of the Post	Pay scales	Posts as per schedule of the Rules 1996	Posts after bifurcation	Additional Posts sanctioned After bifurcation	Total No. of Posts	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Secretary	---	1	1	---	1	---
2	StenoGrapher	5200-20200 Grade Pay 2800	2	2	---	2	---
3	Accountant	5200-20200 Grade Pay 2400	1	1	---	1	---
4	Assistant Grade - 2	5200-20200 Grade Pay 2400	1	1	---	1	---
5	Assistant Grade - 3	5200-20200 Grade Pay 1900	2	2	---	2	---
6	Driver	5200-20200 Grade Pay 1900	1	1	---	1	---
7	Peon	4440-7440 Grade Pay 1300	4	4	---	4	---

SCHEDULE C**DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY**

S.No.	Name of the Post	Pay scales	Posts as per schedule of the Rules 1996	Posts after bifurcation	Additional Posts sanctioned After bifurcation	Total No. of Posts	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Assistant Grade - 2	5200-20200 Grade Pay 2400	54	39	19	58	Vide Order No. 1654/21-B(II) dated 09.06.2015
2	Assistant Grade - 3	5200-20200 Grade Pay 1900	90	74	50	124	Vide Order No. 1654/21-B(II) dated 09.06.2015
3	Process Server	4440-7440 Grade Pay 1300	99	74	---	74	
4	Peon	4440-7440 Grade Pay 1300	45	30	50	80	Vide Order No. 1654/21-B(II) dated 09.06.2015

SCHEDULE D**TEHSIL LEGAL SERVICES COMMITTEE**

1	Assistant Grade - 3	5200-20200 Grade Pay 1900	160	110	23	133	Vide Order No. 1654/21-B(II) dated 09.06.2015
2	Peon	4440-7440 Grade Pay 1300	160	119	6	125	Vide Order No. 1654/21-B(II) dated 09.06.2015

बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.